



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7386.-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Council Tonk has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Tonk. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Deputy Secretary to Government.**

कार्यालय नगर परिषद टोंक

प्रारूप "क"

वार्ड संख्या	विवरण
1	आर.ए.सी. 9 वी बटालियन ईदगाह तालाब के पास की आबादी लेते हुये बनास नदी जाने वाले मार्ग पर खाला साहब के बाग को लेते हुये गहलोद घाट के किनारे तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 अनिस के मकान से लेकर भवन नं० 118 मेहरून्निसा तक बैगम बाग के सामने मुख्य सड़क पर नवनिर्मित बसी कालोनी को लेते हुए बीड़ी श्रमिक कालोनी को लेकर बाये हाथ चलकर बहीर की ओर जाने वाले मार्ग पर मछलीबालान की आबादी असलम के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रामरतन के मकान से लेकर भवन नं० 242 आकिल मो० के मकान तक बन्धा जानबाज के पास कंवरीलाल कीर के मकान के पास से शुरू होकर माताजी का मंदिर व कृष्ण जी का मंदिर मालियो की आबादी लेकर फूलबाग जाने वाले रास्ते तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 जमनालाल के मकान से लेकर भवन नं० 101 सत्यनारायण के मकान तक ककराज घाट से चतुर्भज तालाब आने वाली रास्ते पर धोला माली बालाजी के छतरी पहाड़ी के नीचे की आबादी टेचिंग ग्रउण्ड हेण्डपम्प भूरा काना के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 छोगालाल कीर से भवन नं० 104 नानगराम कीर तक ट्रेचिंग ग्रउण्ड से सरवराबाद जाने वाले रास्ते पर सरवराबाद की आबादी शामिल करते हुये पंचायत भवन तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 गुलाबचंद के मकान से भवन नं० 89 आवास सह आंगनबाड़ी, कालूराम सैनी के पास भवन नं० 93 चाराघर तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 97 प्रहलाद सैनी के पास भवन नं० 94 से भवन नं० 195 छोटूलाल सैनी के पास भवन नं० 196 चाराशेड तक बधाजानबाज मे सुरजमल, रामपाल के मकान से शुरू होकर मन्दिर को लेते हुये बन्धाजान बाज की सम्पूर्ण आबादी संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 संतोक से भवन नं० 69 सुरज,

	पप्पू तक
2	सोलकियों के कुएं के पास माणक्या के मकान से शुरू होकर मसानियों व हलवालियों के कुवे की आबादी लेते हुये संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 मनख्याराम के मकान से लेकर भवन नं 079 रतनलाल के पास पशुशेड तक पॉच कुआ के पास पिरु मकान से शुरू होकर चिडियों की बाड़ी, पीपली वाला कुआ आमली वाले कुएं की आबादी लेकर रूपा के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 पीरुलाल सैनी के मकान से लेकर भवन नं 106 घासी सैनी के मकान के पास बने हुए भवन नं 0109 पशुशेड तक महादेवाली के पास बनवारी लाल शर्मा के मकान से शुरू होकर पार्वती नगर की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए आर.एस.ई. 9वीं बटालियन जाने वाले रास्ते पर ग्यारसीलाल माली के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 बनवारीलाल वैष्णव से भवन नं 065 ओमप्रकाश वर्मा के मकान तक आर.ए.सी. 9 वीं बटालियन के पीछे बीखापुरा जाने वाले मार्ग पर शंकरलाल माली के मकान से शुरू होकर बाय हाथ चलते हुये बीखापुरा की सम्पूर्ण आबादी संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 शंकरलाल सैनी के मकान से लेकर भवन नं 0122 राजेन्द्र भाण्ड तक बनास नदी गहलोद घाट पर बजरी टैक्स वसूली की चौकी से प्रारम्भ होकर नदी किनारे होते हुये शमशानघाट बारादरी हनुमान जी का मंदिर पॉचकुआ तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 पूरणमल के मकान से लेकर भवन नं 099 रामप्रसाद के मकान तक
3	पांच कुआ सड़क से मोलाईपुरा जाने वाले रास्ते के कोर्नर पर पम्प हाउस व खेल चक्की से शुरू होकर कजोड़ यादव संरपच के मकान को लेकर मोलाईपुरा स्कूल होते हुवे रामप्यारी के मकान तक, सोलगपुरा के रास्ते से बिछारस में कालूराम यादव के मकान से प्रारम्भ करके सम्पूर्ण बिछारस की आबादी लेते हुये रामस्वरूप यादव के मकान तक, खातियों के कुऐं पर बसी हुई आबादी और सूरजकरण के मकान से खेतों में बसी हुई सम्पूर्ण आबादी, डाइट रोड पर बसी हुई सम्पूर्ण बस्ती की आबादी को लेते हुए बन्नासिंह के मकान तक, डाईट रोड से दाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी व आईटीआई कॉलेज, सेन्ट जोजफ कॉलेज से आगे बढ़कर वजीरपुरा में रतीराम चोपड़ा के मकान से शुरू होकर वजीरपुरा की सम्पूर्ण आबादी व मन्दिर को लेते हुवे राजेन्द्र सिंह के पास की सम्पूर्ण आबादी।
4	आबादी तुम्बीपुरा में रामलाल के मकान से शुरू होकर यहाँ की पूरी आबादी लेते हुये नेनसुख की बगीया में रामदेव के मकान तक, आबादी नेनसुख की बगीया में शुरू होकर हनुमान जी व सीताराजी का मंदिर लेते हुये रामलाल का मकान को भामिल करते हुए मन्जु मियों का कुआ लेते हुवे शंकरपुरा की पूरी आबादी लेते हुए राधेश्याम का मकान लेते हुए पशुशेड से शुरू होकर प्रहलाद के मकान तक, मंदिर बालाजी से रोडवेज डिपो कार्यालय होते हुये जेल रोड महावीर तोगड़ा वकील का मकान आवासीय पन्नाधाय से ओमप्रकाश चौधरी के पास महेन्द्र सिंह तक, यहाँ से देवली-कोटा रोड पर पुराना चुंगी नाका के पास बसी हुई नई बसी आबादी को भामिल करते हुए, सिन्धी शमशान के पास की आबादी मुख्य रोड स्वराज टेक्टर दुकान पीछे आबादी लेते हुए मुख्य मार्ग की दुकानों को लेकर राजवी विधापीठ स्कूल शमशान को लेते हुए नारायण लाल सैन के पास खाली मकान तक, स्वराज टेक्टर के पास प्लाजा टायर से विकास विहार कालोनी सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पतंजली केन्द्र से एस.बी.आई. टॉक की आबादी को छोड़ते हुए रोडवेज डिपो तक।
5	सोलंगपुरा मुख्य रोड पर कान्हा सोलकी के मकान से शुरू होकर पुष्कर की होटल सुक्का बंजरा का कुआ घासी व जागीरदार के कुएं की आबादी सीताराम तक सोलगपुरा जाने वाले रास्ते पर जगदीश की दुकान व चक्की से शुरू होकर दोनों हाथ सम्पूर्ण आबादी लेते हुये रामलाल की चक्की को लेते हुये गिरधारी माली के मकान तक, सोलंगपुरा मन्दिर रघुनाथ जी से शुरू होकर बाये हाथ चलते हुए सोलंगपुरा स्कूल मन्दिर माताजी की आबादी को शामिल कर रामोतार अजमेरा के मकान को भामिल करते हुए कोने तक, तालकटोरा तिराहे पर सेन्ट सोल्जर स्कूल से बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी सोलगपुरा रोड बाये हाथ की आबादी खाल के हनुमान जी शुरू होकर चाहमोदी पर तेजाजी के मन्दिर के तक, चाहमोदी पर तेजाजी के मन्दिर से शुरू होकर महादेवाली की तरफ जाने वाले रास्ते के बाये हाथ की

	आबादी लेते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास तक।
6	पटेल सर्किल राजकीय डाक बंगला से प्रारम्भ होकर तहसील, डी.आर.डी.ए. कार्यालय, जिला कलेक्टर आवास गृह, टेलीफोन कॉलोनी, सिविल लाईन, शिवालय के सामने जिला कलेक्टर आवास की ओर जाने वाले मार्ग की उत्तरी पूर्वी दक्षिणी आबादी लेते हुए बाईस क्वार्टर्स की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए अभयमल बंम तक। यहाँ से वापस घण्टाघर की ओर जाने वाले मार्ग पर केसरा, बालू के मकानों को लेकर शिवालय, विधुत विभाग कार्यालय, सर्किट हाउस, टेगोर बाल निकेतन को लेकर अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय से वापस घुमकर जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक कार्यालय पंचायत समिति आवास, पुलिस अधीक्षक आवास, जिला जज आवास, ए.डी.एम आवास तक। सर्किट हाउस के नीचे की आबादी लेकर महादेवाली मार्ग से मोदी की चौकी और आने वाले मार्ग की बायी और आबादी लेते हुये चाहामोदी से केसर बालू के मकान तक। पवेलियन कालेज, आहुजा गार्डन, सहादत अस्पताल के पीछे गादौलाई तालाब की सम्पूर्ण आबादी भास्मिल करते हुए न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर, जिला कलेक्टर कार्यालय तक।
7	आर.ए.सी. 9 वी बटालियन के पूर्वी गेट से शुरू होकर केम्पस की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये बायी तरफ चलते हुये भवरलाल मीणा के मकान से आर.ए.सी. के गेट तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रतनलाल शर्मा के मकान से लेकर भवन नं० 52 हबीब के मकान के पास निर्माणाधीन मकान तकराजकीय महाविधालय रोड पर आगे बढ़ते हुए डॉ० अजमल सईद का मकान के आस पास की आबादी लेते हुए मोहल्ला पायगा हमदू के मकान से शुरू होकर अच्छन खां मार्ग से रुही साहब के मकान मार्ग व पुरानी टोंक आने वाले रास्ते की आबादी लेकर, मोहल्ला बहीर पुलिया से पायगा गली मे हमीद पुत्र मसीता से शुरू होकर मुस्तकीम के मकान तक राशन की दुकान से शुरू होकर अच्छन मिया मार्ग पर बाये हाथ आबादी लेकर हजारी के मकान तक, पुलिया के पास सादिक के मकान से शुरू होकर मस्जिद, नृसिंह जी मंदिर, गोपीचन्द वर्मा, मालियो की गली होकर जामा मस्जिद के सामने धोबी के मकान तक, न्यू सोल्जर पब्लिक स्कूल मंदिर वाली गली आर्यन पब्लिक स्कूल लेकर से स्कूल रामावि बहीर से महाजनो की गली रेगरो व मालीयो की गली लेकर मोहल्ला बहीर कुवे के पास साईबर खां के मकान से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी व छोटी बड़वाली मस्जिद को लेते हुवे कुवे के पास की समस्त आबादी लेकर डामर सड़क अच्छन मिया के आस पास की सम्पूर्ण आबादी लेकर पुलिया तक।
8	असलम भाई के मकान को लेकर कच्चे रास्ते की बाई और की आबादी लेते हुये फूलबाग की सड़क तक भवन नं० 1 जफरमिया के मकान से लेकर भवन नं० 38 मलका बी के मकान तक असलम भाई के मकान को लेकर कच्चे रास्ते की बाई और की आबादी लेते हुये फूलबाग की सड़क तक भवन नं० 39 अमरदीन मो० के पास खाली मकान से शुरू होकर भवन नं० 136 पूरणमल के मकान तक रा.मा.वि. बहीर को लेकर अ० शकूर के मकान को लेते हुये बाबू नसीम की आबादी को लेकर महाजनो गली हवेली अब्दुल्ला खां की आबादी लेकर बशीर के मकान तक हेण्डपम्प के पास गली मे संक्षिप्त मकानसूची के अनुसार आरीतारी की दुकान के पास भवन नं० 58 फकरुद्दीन के मकान से शुरू होकर मीट व परचुनी दुकानो को लेते हुये बाल श्रमिक विधालय भवन 99 को लेकर मंदिर कोहल्या माताजी भवन नं० 142 तक रास्ता फुलबाग रोड पर संक्षिप्त मकानसूची के भवन नं० 1 बतुल के मकान से आंगनबाड़ी भवन नं० 40 को लेते हुए हेण्डपम्प के पास गली मे भवन नं० 57 हफीज के मकान तक
9	पंचकुईया दरवाजे के अन्दर से शुरू होकर मस्जिद हमामुद्दीन, महलवाड़ी की आबादी लेते हुये मिया का चौक से दाखिया भवन तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 पूरणमल पहाड़िया से भवन नं० 61 गोविन्द कंवर तक दाखिया हाउस से धोबियो की गली मालियो की गली मो० पठानान मे बाये हाथ मस्जिद तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 कैलाश रेगर से भवन नं० 55 सुखवीर सिंह तक मोहल्ला मालियान मे गंगाराम रेगर के मकान से शुरू होकर मन्दिर मालियान, माताजी का मन्दिर लेते हुए बड़े चबुतरे की ओर जाने हुये गंगलेखर महादेव के मन्दिर को लेकर मुन्नी के मकान तक पुरानी कोतवाली के पास

	चान्दमल जैन के मकान से माणक चन्द मोहल्ला पठानान की दक्षिणी आबादी गोगा बाबा के मन्दिर को लेते हुये मिया का चौक मे अहमद के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रईसा बी से भवन नं० 69 कमला जैन तक मोहल्ला पठानान मे मस्जिद के पास से शुरू होकर मन्दिर मालियान, साहब जादा अब्दुल शकुर इमाम बाड़ा मे मस्जिद तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 मस्जिद पठानान से भवन नं० 49 अब्दुल रशीद तक मस्जिद के पास से शुरू होकर कोलियान की उत्तरी आबादी तुलसीराम व रूपचन्द के मकान कोलेते हुये किशनलाल के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 ईकबाल अहमद से भवन नं० 58 कन्हैयालाल तक
10	मालपुरा दरवाजा मेहता भवन से शुरू होकर हकीम याहया मियॉ के मकान को बाये हाथ लेते हुये पंचकुईया गेट की ओर जाने वाली पतली गली के दोनो ओर की आबादी लेते हुये पूर्व सहकारी समिति कार्यालय को लेते हुये मो० शेखान की समस्त आबादी लेकर रमेश कुमार माथुर के मकान को लेकर कालाबाबा मे श्याम बिहारी सक्सेना, मंदिर काला बाबा एवं बाबू चांदमल जी के रास्ते की दोनो ओर की समस्त आबादी लेते हुये चोक कालाबाबा में दक्षिणी साईड की दोनो गलियो की आबादी लेते हुये पुराने आयुर्वेदिक ओषधालय भवन, पोस्ट ऑफिस को लेकर केलो के नीम के नीचे से महावीर चोक की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये बाई और चलते हुये चोक बाबरान मे चेतालय के सामने उत्तरी साईड की आबादी को लेते हुये तोषनीवाल की दुकान से बाये हाथ चलते हुये मियॉ के चोक मे होकर दाईयो की गली की दोनो ओर की आबादी लेते हुये पंचकुईया गेट के जाने वाले रास्ते पर बाये हाथ की आबादी लेते हुये पंचकुईया गेट के बाहर रामदेवा खटीक की दुकान से बाई और मुडकर बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी में, आयकर विभाग को शामिल कर मालपुरा गेट तक। दाखिया हाउस से धोबियो की गली मालियो की गली मो० पठानान मे बाये हाथ मस्जिद तक आटा चक्की के पास जहीर अहमद के मकान से शुरू होकर जैन चेतालय सृष्टि पब्लिक स्कूल मोहल्ला टंडियान शिवालय तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 जहीर अहमद, जैन मंदिर से भवन नं० 38 शिवालय तक।
11	घण्टाघर पर निर्वाचन कार्यालय से शुरू होकर मोहल्ला चुडीगरान की बाई और की आबादी लेते हुए बड के पास से वापस मुडकर मोहल्ला टंडियान की आबादी को लेते हुए सत्यनारायण टिक्कीवाल, बिरधीचंद अत्तार को लेते हुए टिक्कीवालो के मोहल्ले में दयाल महाराज के मंदिर को लेते हुए नगर परिषद के गोदाम से मेहन्दवास दरवाजे के अन्दर होकर ईद मोहम्मद का मकान गुवाड़ी कारीगरान चोक बाबरान से जैन चेतालय को लेते हुए मार्डन नर्मदा फैक्ट्री से मालपुरा दरवाजा होकर पुराना बस स्टेण्ड होते हुए सेल टेक्स कार्यालय तक मालपुरा दरवाजा देवकरण गुर्जर से वाणिज्य विभाग साईभोजनालय मालियो की धर्मशाला, रामद्वारा सीताराम प्रजापत के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 आवास सह दुकान देवकरण गुर्जर, बाल भारती स्कूल आबकारी कार्यालय मंदिर ठाकूर जी से भवन नं० 205 सीताराम प्रजापत तक।
12	मंदिर केशवजी से शुरू होकर घण्टाघर आने वाले मार्ग पर फूलचंद चावडा के मकान के पास इमली वाली गली की दोनो ओर की आबादी लेते हुए फूलचंद चावडा के मकान से पतली गली से होकर मेहन्दवास दरवाजे से बम्बोर गेट जाने वाले रास्ते पर निकल कर गुजरो का चोक लेते हुए दयालपुरा वालो की बंद गली लेकर रतनलाल व लालूरामजी एक्स.एम.एल.ए. के मकान को लेते हुए कब्रोवाली गली मे बाये हाथ चलते हुये मस्जिद नीलगरो को लेकर पतली गली में होते हुये छोटे बाजार मे आकर किशन लखेरे की गली, मन्दिर ओसवालान की दोनो की आबादी को लेकर भैरूजी के मंदिर से वापिस छोटे बाजार मे आकर शंकर दवाखाना को लेते हुये रुई पिदने की मशीन के पास बाईजी रंडी की गली की दोनो ओर की आबादी लेते हुये बिजली के खम्बे के पास की गली की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये एक्स चेयरमेन गणे । माहुर के मकान को लेते हुए मंदिर खटीकान को शामिल करते हुये केशवजी के मंदिर के सामने से कुजड़ो व जाटापाड़ा की सम्पूर्ण आबादी लेकर डागा सदन एवं कुमावतो के चोक की आबादी लेकर मंदिर केशवजी तक।
13	घण्टाघर पावर हाउस सब-स्टेशन से शुरू होकर पटेल सर्किल के पास गुर्जर की होटल से

	गली कारीगरान की बाई और की आबादी लेते हुए शिवलाल सोनी के मकान से वापस मुड़कर सीताराम एडवोकेट का मकान लेते हुए गुर्जर की होटल को शामिल करते हुए गली कायमखानीयान की दोनों ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए फूलचंद एडवोकेट के मकान से मालियों की गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुए तांगे वालों की गली की आबादी लेकर शिवालय तक एवं मन्दिर से शुरू होकर मोहल्ला शोरगरान की ओर आने वाली बायी और की आबादी लेते हुये रलक से रामचरण साहू के मकान को लेते हुये घण्टाघर की ओर आने वाले रास्ते पर बायी और चलते हुये गली से मुख्य बाजार में आकर खादी भण्डार से पावर हाउस सब-स्टेशन तक लल्लूउल तेली के मकान से शोरगरान चोराहे सुमित मेडिकल सुभाष बाजार को लेते हुये अग्रवाल बीज भण्डार गली में हेण्डपम्प तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 कालूराम जैन से भवन नं 094 मंदिर ऐरूजी तक
14	नटराज होटल से भुरु होकर दाये हाथ चलते हुये गहलोत नर्सिंग होम को भामिल करते हुए डॉ० बनीप्रसाद की गली एवं डॉ० जेसीगहलोद के दोनों ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए मुख्य रोड पर विकास मेडिकल स्टोर से ऐजेन्टी बगला रोड पील्लर के पास जी.के.गुप्ता से शुरू होकर ऐजेन्टी बगला को भामिल करते हुए पहाड़िया आबादी खारवालान लाडले मिया के मकान से नई दुकाने मस्जिद शोरगरान की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये, चोराहा शोरगरान में पहाड़िया की ओर जाने वाले रास्ते पर अब्दुल रशीद गिरदावर से शुरू होकर पहाड़ी पर चलते हुये चमारान की सम्पूर्ण आबादी लेकर कमर मंजिल लालाजी के मकान तक, रास्ता भिश्तीयान में प्रभूलाल के मकान से शुरू होकर गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुये हेण्डपम्प के पास तक ।
15	लाला जी के मकान के पास मो० रफीक भिश्ती के मकान से शुरू होकर गली भिश्तीयान के पास की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये गली के नुक्कड़ तक मोहल्ला साईपुरा में दीन मोहम्मद से भामिल करते हुए सरोज बाई सम्पूर्ण आबादी साई बस्ती, पहाड़ी, बस्ती फकीरान में हेण्डपम्प तक, हेण्डपम्प से आराम तीन के गली की तरफ की दोनों तरफ की आबादी भामिल करते हुए गोल की मस्जिद को भामिल करते हुए रेडीवास से शुरू होकर बाये हाथ के मकानों को लेते हुए रेडीवास तलाई तिराहा तालकटोरा सेन्टसोल्जर स्कूल के सामने कुईया के पास तक सैयदयों की मस्जिद के सामने गुलाम मोहम्मद के मकान से शुरू होकर बावड़ी चोराहा बड़ा कस्साबान मस्जिद गोल के रास्ते से मिट्ठू पहलवाल में बाये हाथ चलते हुये जाकिर हुसैन के मकान तक ।
16	गली चोबदारान के नये नुक्कड़ से शुरू होकर अजीजीया स्कूल गली कारीसाहब की कुईया बाये हाथ की आबादी लेते हुए तालकटोरा रोड पर फजलुरहमान के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 अब्दुल कवी खांन से भवन नं 039 नूरन्निसा तक ताल कटोरा चोराहे पर अब्दुल वहीद साईकल वाले की दुकान सेशुरू होकर मस्जिद मुनीर खां गली जाहिद टाईपिस्ट की गली चोबदारान के नुक्कड़ तक भवन नं 030 नसीम जहौं से शुरू होकर भवन नं 0121 वासिफ युसुफ जे.ई तक पप्पू लाल धोसी के मकान से शुरू होकर, मोहनलाल तेली, जियाउल्ला खां, आजमशाह, खान हाउस कब्रवाली गली, गली चोबदारान के नुक्कड़ तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 विधा देवी से भवन नं 069 बिट्ठल ग्वाला तक गली इकरामुददीन खां में सलीम मियाँ के मकान से शुरू होकर मेहमूद बैरवाओं का बेड़ा शेखावत अली खां सूरज के मकान से धुमकर अजीमुल्ला के मकान से अतीक तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 अब्दुल मेहमूद से भवन नं 042 अब्दुल जाहिद तक मो० रजबन गली इकरामुददीन खां में ओटो चालक के मकान के सामने शुरू होकर मस्जिद रजबन मो० इलयास मो० अहमद शहजाद हाफिज करीमुददीन तक पुल बैरवान अजमद अली अब्दुल्ला उमर मिया पुल तक। संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 01 शमीम मिया से भवन नं 057 उमर मिया के मकान को लेकर भवन नं 059 खाली मकान तक
17	तालकटोरा तिराहे पर सेन्ट सोल्जर स्कूल से दाये हाथ की आबादी लेते हुए विवेकानन्द सर्किल तक पुनः दायी ओर मुड़कर बनास फिलिंग स्टे न से डॉ० आर०एस० भार्मा के पास की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए शंकरपुरा चोराहा राजेन्द्र प्रसाद बगड़ी के मकान के पास तक,

	यहाँ से जेल कारागृह केम्पस की सम्पूर्ण आबादी लेकर मुख्य गेट के बाहर बने हुवे राजकीय क्वाटर्स की आबादी भासिल करते हुए श्योजीलाल गढ़वाल के मकान से लेकर पूरी आबादी लेते हुवे शंकरपुरा चोराहा तक एवं शकरपुरा चोराहा से सामुदायिक भवन तक, भांकरपुरा चोराहे से कच्चे रास्ते चलकर मामूलान्जे की दरगाह के सामने होते हुए सेन्ट सोल्जर स्कूल तक।
18	जैल कारागृह के पास से वैशाली नगर, ज्योतिबा कॉलोनी जयपुर आई होस्पिटल बाए हाथ चलकर एकडमी स्कूल लेकर कालू बागडिया के गोदाम को लेते हुए अप्बेडकर आवासीय विधालय को भासिल करते हुए, ताल कटोरा चोराहे पर हायर सेकेण्डरी स्कूल की ओर चलते हुये राज मेरिज हाल के हायर सेकेण्डरी स्कूल टोंक मेरिज हाल भैया रफीउल्ला बेग साहब की कोठी सामने गर्ग टेन्ट हाउस को शासिल करते हुये शास्त्री नगर की गलीयों की आबादी लेते हुये हनुमान सेनी के मकान तक शास्त्री नगर आलोक सेकेण्डरी स्कूल के सामने रामदेव माली के मकान शुरू होकर खेल मैदान, शिक्षा विभाग नेहरू पार्क किंदवाई पार्क, मन्दिर व मस्जिद एस.सी. की दुकाने कासलीवाल वकील का मकान राजटाकीज चोराहे तक सवाई माधोपुर रोड हेमू कालानी सर्किल पर सिंहल पेट्रोल पम्प से कशीश टेलीकाम गली मे मुड़कर ताज कॉलोनी की आबादी भासिल करते हुए उद्वा मस्जिद को भासिल करते हुए देवली रोड पर एस.बी.आई. बैक के पास की आबादी भासिल करते हुए महादेव मन्दिर के सामने से होते हुए जिला कारागृह तक दायी ओर की आबादी लेते हुए।
19	जैन मन्दिर की पुलिया के पास प्रथम दुकान से शुरू होकर अग्रवाल धर्मशाला विजयवर्गीय धर्मशाला यज्ञ के बालाजी की सम्पूर्ण आबादी को भासिल करते हुए सवाई माधोपुर रोड पर मुख्य डाकघर के पीछे की एवं इन्द्रा कॉलोनी की समस्त आबादी लेते हुए राजकीय कन्या महाविधालय से शुरू होकर कच्चे रास्ते भुरू होकर दाये हाथ की आबादी भासिल करते हुए जखीरे के सामने एन.एच.12 सोनवा रोड के तिराहे तक यहाँ से जखीरे के सामने राजस्थान राज्य विधुत मण्डल ग्रामीण के पास की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए चौधरी कॉलोनी, भार्मा कॉलोनी, महावीर नगर की सम्पूर्ण आबादी भासिल करते हुए भूते वर महादेव के पीछे ताज कॉलोनी की सम्पूर्ण आबादी लेकर पुनः भूते वर महादेव मंदिर तक।
20	डीपो के सामने मनीष इलेक्ट्रिकलर्स से चलकर बाए हाथ की आबादी लेकर गली मे दाल मिल, बर्फ फेकट्री लेकर ताल कटोरा सहकारी समिति के पास तक विजयवर्गीय प्रोविजनल स्टोर से शुरू होकर मस्जिद, इसूजी गारमेट्स फेकट्री, एन.एच. 12 के बायी और कमेले के आस पास की आबादी भासिल करते हुए सोनवा रोड तिराहे तक।
21	बाडा जेरेकिला के पास रुकमणी पेट्रोल पम्प से दाये हाथ एन.एच. 12 जयपुर की तरफ चलते हुए बाडा जेरेकिला की सम्पूर्ण आबादी भासिल करते हुए सोनवा रोड जाने वाले चोराहे से दाये हाथ चलते हुए दयाल यादव जुम्मा मिया के मकान से रोड की दायी ओर की समस्त आबादी, भासिल करते हुए सोनवा रोड चोराहे तक जुम्मा मिया से भवन नं0 38 भवरलाल बैरवा तक।
22	सोनवा रोड से टोंक आने वाले मार्ग पर दयालयादव की समस्त आबादी, रा.रा.मार्ग 12 से सोनवा जाने वाले मार्ग पर कचोलिया की ओर की बायी ओर की आबादी भासिल करते हुए एन.एच. 12 पर पेटोल पम्प एवं द्वारिका नगरी, बृज विहार कॉलोनी को भासिल करते हुए सवाई माधोपुर रोड पर दोनों ओर की आबादी भासिल करते हुए, तारण की सम्पूर्ण आबादी एवं बिसलपुर योजना सवाई माधोपुर रोड बाईपास चोराहे पर टासंपोर्ट कम्पनी से नहर तक पिली तलाई बिसलपुर कालोनी, राज मिडवे हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प तक।
23	मोतीबाग तालाब के पास गल्स स्कूल जाने वाले रास्ते से शुरू होकर पाल की आबादी लेते हुवे चन्द्रलोक होटल वन विभाग को शासिल करते हुवे रिलायन्स पेट्रोल पम्प तक भवन नं0 1 रईस मिया से भवन नं0 94 जाहिद के मकान तक मोतीबाग तालाब के पास गल्स स्कूल जाने वाले रास्ते से शुरू होकर पाल की आबादी लेते हुवे चन्द्रलोक होटल वन विभाग को शासिल करते हुवे रिलायन्स पेट्रोल पम्प तक भवन नं0 95 रशीद से भवन नं0 262 बाबू कुरेशी तक।
24	मोतीबाग तालाब के रास्ते पर अहमद भाह की मस्जिद से दाये हाथ चलते हुए मस्जिद के

	<p>पीछे की सम्पूर्ण आबादी भामिल करते हुए राजकीय कन्या महाविधालय, गुलजार बाग स्कूल के सामने की आबादी एवं सबीलशाह की चोकी की तरफ चलते हुए दाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी भामिल करते हुए मस्जिद सईदिया के आस पास की दोनों गलियों की सम्पूर्ण आबादी भामिल करते हुए भवानी सिंह के मकान को भामिल कर दाये हाथ चलते हुए पायगा मे अब्दुल सईद खां के मकान से शुरू होकर मुजिब मंजिल को लेकर सिंधियों की गली लेते हुये गली शेर अली खां के नुकड़ तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 अब्दुल सईद खांसे भवन नं 0 71 शाहिद रशीद के आगे बंद दुकान भवन नं 0 73 तक अर्थात् सिटी नं 0 4 को भामिल करते हुए मोतीबाग तालाब की पाल की दाये हाथ की आबादी भामिल करते हुए कच्चे रास्ते से अहमद भाह की मस्जिद तक ।</p>
25	<p>मदिना मस्जिद के सामने कोर्नर से भुरू होकर दाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी भामिल करते हुए राज टाकीज के सामने सुजुकी सेन्टर से शुरू होकर विवेकानन्द स्कूल मुख्य मार्ग आलोक पब्लिक स्कूल, कोठीनातमाम, राज पैलेस, सैनी नगर, की सम्पूर्ण आबादी भामिल करते हुए नजर बाग की सुनहरी कोठी मे बसी हुई आबादी को भामिल करते हुए सेटलमेन्ट ऑफिस के पास की आबादी भामिल करते हुए राजटाकीज चौराहे से बड़ा कुआ की और जामा मस्जिद के दाये हाथ की गलियों की आबादी भामिल करते हुए मोतीबाग रोड पर, गली भोर अली खां की अगली गली से अन्दर की दाये हाथ की आबादी लेते हुए कंटान वाली गली, टाटा टेली कम्प्यूनिकेशन को बाये हाथ छोड़ते हुए दाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए देवली रोड पर भार्गिंद पे आरा मीन की आस पास की गलियों की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए रत्नलाल जी बिलास पुरिया के मकान की दुकान कार्नर गली शेर अली खां के नुकड़ पर पूर्वी कोने से शुरू होकर टाटा टेलकाम को लेते हुवे आरा मशीन के सामने बेलिंग की दुकान के पास गली के कोने तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 आटा चक्की से भवन नं 0 37 भवानी सिंह तक</p>
26	<p>रास्ता अरब सहाब की मस्जिद नुकड़ पर सरदार मो 0 के मकान से शुरू होकर गली भण्डार खाना गली छम्मामिया लेते हुए चोराहा ताल कटोरा पर चेतना हाउस तक ताल कटोरा चोराहे पर अब्दुल वहीद साईकल वाले की दुकान से शुरू होकर मस्जिद मुनीर खां गली जाहिद टाईपिस्ट की गली चोबदारान के नुकड़ तक मोहल्ला नायकान मे रामपाल के मकान के पास से शुरू होकर जिन्सी स्कूल बाये हाथ ताल कटोरा के चोराहे तक पावर हाउस रोड पर दुकान से शुरू होकर ताल कटोरा की दक्षीणी आबादी डामर सड़क से मोहल्ला नायकान मे रामपाल के मकान तक ।</p>
27	<p>गली इकरामुददीन खां में श्रीमति राबिया से बाये चलते हुए मस्जिद लाडली बेगम नाले नाले चलकर पुल बैरवान हीरालाल के मकान तक मन्ना लाल के मकान से रजबन मे गली बवाली लिसोडो की चोकी गेन्दी लाल के मकान के कच्चे रास्ते से सेन्ट सोल्जर के सामने मस्जिद अरब साहब । अरब साहब के बाग के रास्ते पर अंसार अहमद से शुरू होकर मस्जिद अरब साहब गली मसूद खां मिर्जा पुरा की आबादी अ 0 तव्वाब शफीक के मकान तक गली छुट्टन खां मे फूल चन्द के मकान से शुरू होकर पुलिया से चलते हुए जंगल के रास्ते से लिसोडो की चोकी बाबूलाल के मकान तक गली चोबदारान के कोर्नर पर मो 0 सईद के मकान से सेन्ट थामस स्कूल को लेकर गली चोबदारान मे बाये हाथ चलकर हनीफ भाई के मकान को लेकर आरिफ भाई तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 सईद खां से भवन नं 0 56 अहसानउल्ला खां तक पावर हाउस रोड पर शाहिद मिया की पहेली दुकान से शुरू होकर बाये हाथ चलकर जाल का का कुआ मांगी तेलन की गली की आबादी बड़ा पुल गंगाधर तेली के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 अब्दुल हमीद से भवन नं 0 36 लाली देवी तक</p>
28	<p>भूरजी माली के मकान से शुरू होकर बाये हाथ सैय्यदों की मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते पर कल्लूमियाँ की हवेली, मिट्टू पहलवान को बाये हाथ लेकर मस्जिद गोल गली के नुकड़ तक भूरालाल सैनी से भवन नं 0 88 राप्रावि रिफ्युजी तक राप्रावि रिफ्युजी के पास भवन नं 0 89 आवास सह दुकान मो 0 सादिक से भवन नं 0 174 मो 0 सिद्धिक तक बड़ा पुल बैरवान के पास कासिम अली चोक मस्जिद लाडली बेगम, गली नासिर अली खां कोट</p>

	साहब मास्टर अली अहमद अब्दुल मुस्विर राधेश्याम का मकान लेकर रहमुतुल्ला बेग तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 सैयद कासीम अली से भवन नं 105 मो 105 रेहान तक
29	मस्जिद काफला गली में माणक चन्द की परचूनी दुकान से शुरू होकर वकील हबुबुददीन को लेकर पुल के नीचे उत्तरकर मस्जिद काफला की गली के कोने पर कृष्ण परचूनी दुकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 किराणा स्टोर माणक चन्द से शुरू होकर से भवन नं 129 कृष्णा किराणा स्टोर तक गली मालियान रामेश्वर बक्से वाले मकान से शुरू होकर मन्दिर मालियान नाले नाले चलते हुए गलर नसवारिया की उत्तरी आबादी लेकर बाजार मे पतासे वाले की दुकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 आवास सह गोदाम मोहनलाल से भवन नं 79 श्योजीलाल तक अडडे की पुलिया के पास फकीर चन्द के मकान से शुरू होकर पावर हाउस रोड पर ढोम गली मस्जिद मुनीर खां के सामने जनरल स्टोर तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 ग्यारसी देवी से भवन नं 70 इकरामुल हक को लेकर भवन नं 73 जनरल स्टोर तक मस्जिद मुनीर खां के सामने दामोदर मोदी के मकान से शुरू होकर कागजी खटका से उत्तर की ओर चलकर गली नसवारिया के सामने नाथू लाल के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 गोपाल प्रजापतसे भवन नं 58 नाथूमाली के मकान तक नोशे मिया के पुल के पास अ 0 सत्तार बिजली वाले की दुकान से शुरू होकर राम कृष्ण मन्दिर नायब साहब की नाल गली नसवारिया की दक्षिणी आबादी लेकर नोशे मिया के पुल के दरवाजे तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 बिजली के सामान की दुकान से शुरू होकर गली नसवारिया मे होते हुए भवन नं 146 जनरल विरायटीज का लेकर नोशेमिया की पुलिया के अन्दर गेट तक
30	बडे कुए पर जागीरदार की कपडे की दुकान से शुरू होकर सीधे ही नोशेमियाँ के पुल से कागजी खटके मे होकर पतली गली से रामनारायण शर्मा वकील के मकान को लेकर अमृतलाल श्यामलाल नामा के मकान को लेते हुए तख्ते के दरवाजे से वापस मुड़कर गली भैरू जी के पास से रघुनाथ जी का मंदिर गली सत्तार मास्टर मनसुखदास की गली ,गली सराफान तेलियो की गली की दोनो ओर की आबादी लेकर वापस मास्टर मनसुखदास जी की गली से बाहर निकलकर जैन मंदिर लाला के कुए से वापस मुड़कर चौथमल कुशालगड़िया के मकान से वापस घुमकर नाजवाले की गली लेते हुए होली के नुककड से गली इमलीवालान को लेकर पतली गली से मस्जिद मुनिर खां की ओर चलते हुए कल्याण भवन से ओमप्रकाश मार्ग पर बाये हाथ की आबादी लेते हुए लाला के कुए के पास से फूलचंद गोयल के मकान से वापस मुड़कर ओमप्रकाश मार्ग के कोने तक यहाँ से बनवारी लाल झंझर वाले के मकान से शुरू होकर दरवाजे में आदर्श विधा मंदिर को लेकर गिराज प्रसाद सेखावाटिया के मकान को लेते हुए चक्की को शामिल करते हुए यहाँ से वापस मुड़कर ओम प्रकाश मार्ग रामनारायण दाल मील वाले के मकान से शुरू होकर बाये हाथ चलते हुये सेन्ट जोफ स्कूल की गली की आबादी लेते हुये मुनीर खां की मस्जिद के सामने परचूनी दुकान से बाये हाथ चलते हुये बग्गी खाना, पावर हाउस होते हुये ताल कटोरा चौराये से बडे कुए की ओर चलते हुये मुबारक महल रा. प्रा. विधालय सिटी नं 3 को लेकर बडे कुए तक ।
31	नोशे मियाँ के पुल पर सार्वजनिक मूत्रालय व प्याउ के पास गोयल स्टोर से शुरू होकर कारीगरो की गुवाडी त्रिलोक प्रिन्टिंग प्रेस की गली मे बाये हाथ चलते हुये पतली गली मे टीकमदास सिंधी के मकान को लेकर हा० अब्दुल करीम से वापस मुड़कर डा० तेजूमल के मकान को लेकर कुए के पास एसटीडी दुकान से मुड़ते हुये प्रहलाद रुईवाले की गली की दोनो ओर की आबादी लेते हुये त्रिलोक प्रिन्टिंग प्रेस को लेकर मुख्य बाजार मे बाये हाथ चलते हुये मोनू कशीदा सेन्टर से छोटे तख्ते की गलियो की सम्पूर्ण आबादी लेते वापस मुड़कर बडा कुओं तक । यहाँ से बाये हाथ चलते हुये बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये मोतीबाग रोड तेलियो की गली मे सत्यनारायण गुप्ता बम्बोर वाले के मकान से शुरू होकर कल्याण भवन आण्डरा भवन कुऐ से वापस मुड़कर अन्दरुनी गलियो की आबादी लेते पूर्व सेन्ट सोल्जर स्कूल के भवन को लेकर मोतीबाग रोड पर गेलेक्सी टेलर की गली वाजिद अली खां में बाये हाथ चलते हुये बालानी पेलेस को लेकर गली के नुककड तक

	मोतीबाग रोड पर गली वाजिद अली के नुक्कड से शुरू होकर मिट्टूलाल छामुनिया के मकान को बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए नोशेमिया के पूल तक।
32	मस्जिद धन्नातलाई के पीछे मुनीर खां के मकान से शुरू होकर रहीमुल्ला के मकान के पास मॉस की दुकान तक मोतीबाग कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर खुर्शीद मिया के मकान से शुरू होकर प्यारे मिया के मकान तक
33	मोतीबाग रोड पर गली तोफिक खां के नुक्कड पर राशन की दुकान से शुरू होकर बांके लाल जी का मकान लेते हुये बड़ा बैरवान को लेते हुये गली बलाईन में बाणभट के मकान को लेकर नल के पास के मकान तक। यहाँ से धन्नातलाई मोड पर डां बंशीवाल के मकान के सामने रास्ते के नुक्कड से शुरू होकर कुए के पास की आबादी व गली से दोतलपुरा की सम्पूर्ण आबादी लेकर वापस मुख्यमार्ग पर आते हुये धन्नातलाई पर ईट व कलई की दुकान तक रीछडी के चोराहे पर तेली के मकान से शुरू होकर हजारी पाड़ी की आबादी शामिल करते हुये रामनिवास मिस्त्री के मकान से गली में मुडकर बाये हाथ चलकर हरीराम बैरवा के मकान को लेकर अब्दुल हकीम के मकान तक। खारी कुए के पास अच्छु खां के मकान से शुरू होकर बाये हाथ चलते हुये सड़क धन्नातलाई पर मुडकर बाबूलाल तक व सड़क पार कर छोटूलाल मकान से शुरू होकर मो० शरीफ के मकान तक। चौकी कुम्हारान की सड़क पर जगन्नाथ बैरवा के मकान से शुरू होकर ताराचंद ठेकेदार के मकान को लेकर चौकी कुम्हारान के पास मीठे कुए के पास होकर वापस जगन्नाथ के मकान तक एवं धन्नातलाई के कोने से शुरू होकर युनुस जमादार की बाई ओर की आबादी लेते हुये बलाईयान की बाई ओर की आबादी लेते हुये मंदिर व स्कूल लेकर हबीबनुर के मकान तक।
34	कुम्हारो की चौकी पर राजकीय अस्पताल के पास सगीर अली के मकान के पास की गली की आबादी लेते हुवे गली मालियान के नुक्कड पर सच्चे खां के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० १ सैयद शाकिर अली से भवन नं० ६५ आबिदा बी तक फजलुरहमान के मकान से शुरू होकर गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुवे भैय्या मेनेजर की गली की आबादी लेकर मो.. खां के पुल पर रतीरात खटीक के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० १ हफीजुर्रहमान से भवन नं० ६५ गोपाल के मकान के पास किराने की दुकान भवन नं० ६६ तक मुजीबुरहमान (हबीबुरहमान) मकान से शुरू होकर सईदुलहसन के मकान को लेते हुये मो० खां के पुल, घेर पाडेवालान हैण्डपम्प के सामने भोन्दा खां के माकन तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० १ मुजीबुर्रहमान से से भवन नं० ४८ नन्ही बैगम तक हैण्डपम्प के सामने अजीज मियॉ के मकान से शुरू होकर नसीम हैदरी के मकान को लेते हुये सईदुरीन मो. शेर खां प्यारे मिया के मकान कोलेकर अ. रउफ के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० १ मो० सईद से भवन नं० ४४ अब्दुल कययूम, अब्दुल रउफ तक
35	चौकी कुम्हारान पर नसीर जर्राह की गली में नुक्कड के मकान से शुरू होकर कारी मोर्झैन के मकान को लेते हुवे वाजिद अली खां मे बाये हाथ चलकर गली के नुक्कड तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० २ विकार अहमद के पास भवन नं० १ से शुरू होकर भवन नं० ७३ इनायतुल्ला खां तक लुहारो की गली के नुक्कड अनवर हुसैन का मकान लेकर पटेलों की दोनों गुवाडी लेते हुवे चौकी कुम्हारान पर मस्जिद से पहले स्कूल दुकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० १ आवास सह लुहार की दुकान से अनवर हुसैन से भवन नं० ८० ताहीरा नकवी तक कचेहरी की ओर आने वाली सड़क पर मुस्तफा रेंजर के मकान से शुरू होकर खातियों का घेर मरजीना बैगम की हवेली की दाई और की आबादी लेकर मस्जिद रहमू को लेते हुये पतली गली से कब्र के पास होकर नोशे मियॉ की पुल गली के नुक्कड तक अहमद शहजादा से भवन नं० ८६ गम्भीरमल के पास भवन नं० ८७ खाली मकान तक भवन नं० ८८ आवास सह लोहे की दुकान सईदुल्ला से भवन नं० ११३ नाई की दुकान तक हैण्डपम्प के सामने अजीज मियॉ के मकान से शुरू होकर नसीम हैदरी के मकान को लेते हुये सईदुरीन मो. शेर खां प्यारे मिया के मकान कोलेकर अ. रउफ के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० १ मो० सईद से भवन नं० ४४ अब्दुल कययूम, अब्दुल रउफ तक

	<p>नाला चतरा खटीक के पास अ. रईस के मकान के पास से शुरू होकर अ. हफीज जमादार के सामने हबीबुर्रहमान वकील की ओर जाने वाले रास्ते पर मस्जिद को बाये हाथ लेते हुवे अलादी के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 खालीद मिया के मकान के पास खाली मकान से शुरू होकर से भवन नं 31 निसारुद्दीन तक कचेहरी इबादुल्ला खां के दरवाजे के अन्दर इस्लाम के मकान से शुरू होकर कचेहरी की सम्पूर्ण आबादी मुख्य बाजार में गली बास वाली की मंदिर के सामने पतली गली से होकर मस्जिद रहमू को दाये हाथ छोड़ते हुये कचेहरी के दरवाजे तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 मो 1 ईस्लाम से भवन नं 102 मुनीम तक</p>
36	<p>अजीमुल्ला बजाज के कुए के सामने मच्छु हड्डी वाले की दुकान पतली गली से घेर बछेरान को लेते हुये मो 0 खां के पुल से रीछड़ी वालान, गेंदी की चोकी के सामने होते हुये अजीमुल्ला बजाज के कुए के चोराहे तक, अब्दुल हफीज जमादार के पास अब्दुल मुनीम खां के मकान से शुरू होकर रास्ता मस्जिद आजमशाह, हेण्डपम्प, घेर बछेरान की दक्षिणी आबादी चोराहा अब्दुल रहीम सेकेट्री, रामरहीम स्कुल होकर जमादार के मकान तक, कल्याण मल के मकान को लेते हुये सआदतगंज, रमजानी तेली के सामने की सड़क रूपाड़ी के बेड़े में जफरउल्ला के मकान तक अजीमुल्ला बजाज के कुए से शुरू होकर हमीद से सआदतगंज जाने वाले रास्ते पर मुड़कर आगे चलते हुये नल के पास लक्ष्मीनारायण के मकान तक ।</p>
37	<p>पॉचबत्ती पर सिंधी की दुकान से शुरू होकर टेगोर टाकीज को लेते हुये काफले दरवाजे में खट्टन बीड़ी फैक्ट्री को लेकर गली मेहन्दीवालान की दोनों ओर की आबादी लेकर गली खंगारान की आबादी लेकर जगदीश पोस्टमेन के मकान को लेते हुये जगदीशनारायण शर्मा चोराहा अब्दुल रहीम सेकेट्री तक काफले दरवाजे के पास जनरल स्टोर (परमानन्द हलवाई) से शुरू होकर गली अब्दुल रहीम खां की दोनों ओर की आबादी लेते हुये माणक चन्द का मकान लेकर मूली बाई के मकान को लेते हुये गली अब्दुल रहीम के नुककड़ पर सत्यनारायण के मकान से शुरू होकर कबाड़ी वालों की गली की दोनों ओर की आबादी लेकर लालचंद जी का नोहरा लेते हुये कचेहरी बादुल्ला खा के दरवाजे तक कचेहरी बादुल्ला खां के दरवाजे के अन्दर बाये हाथ की आबादी लेते हुये वापस मुख्य बाजार में गली बास वाली की आबादी लेकर रामकृष्ण मंदिर के सामने पतली गली से होकर मस्जिद रहमू को दाये हाथ छोड़ते हुये वकील हबीबुर्रहमान खां के मकान के सामने होते हुये अब्दुल हफीज जमादार के मकान के सामने गली के नुककड़ तक अब्दुल हफीज के मकान के सामने नाले पर कबाड़ी के मकान से शुरू होकर घेर बिस्तियान को शामिल कर चोराहा अब्दुल रहीम से मुड़कर काफले दरवाजे तक चोराहा अब्दुल रहीम पर जगदीशनारायण शर्मा के मकान से शुरू होकर गली व अजीजमुल्ला बजाज के कुए की बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुये मस्जिद घोसियान को शामिल करते हुये पांच बत्ती पर सिंधी की दुकान के पास तक ।</p>
38	<p>कालीपलटन मस्जिद घोसियान के सामने से शुरू होकर अजीमुल्ला बजाज के चोराहे से गली कोलीयान कुआ को लेते हुये बाये हाथ चलकर मस्जिद घोसियान के सामने तक दीवान जी के कुए के पास चक्की से शुरू होकर बाये हाथ चल कर मन्जुर आलम वकील के मकान व आबादी को लेकर रामदेवा के मकान को लेते हुए कवरी लाल खंगार को लेकर नियाज मोहम्मद की दुकान तक नन्हे खां के मकान से शुरू होकर मोहल्ला अंसारियान में हकीम जहूरुद्दीन अहमद तक सामने मोहसिन के मकान से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी लेकर हाफीज सईदुल्ला के मकान तक डॉ किशनलाल से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए कारीगरों की गली मुख्य बाजार में नामाजी की दुकान के शुरू होकर पांच बत्ती से मुबारक अजीज नाकेदार की दोनों ओर की आबादी संतसंग भवन से डॉ किशनलाल के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 नाथूलाल कुमार से भवन नं 79 डॉ 0 शिखरचंद तक</p>
39	दामा की गली में कमल किराना स्टोर से प्रारम्भ होकर दामा की दुकान लेते हुये काफला

	<p>बाजार पांचबत्ती होते हुये सुभाष चौक ज्वेलर्स की दुकान तक सुभाष सर्किल सूरजमल जैन किराणा स्टोर से रेन्बो स्कूल की रोड होकर बावड़ी चोराहे होते हुवे नोबल पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए सैयदयदो की मस्जिद की गलियों की आबादी शामिल करते हुए दामा की गली जामा मस्जिद काफला के कोर्नर तक रास्ता कस्साबान मे पेन्टर जफर अली खां के मकान से शुरू होकर रास्ता चमारान, बैरवान, रामदेव मन्दिर से इजामिया के मकान से वापस मुड़कर कर बुद्धराम के मकान से स्कूल बस्ती रेगरान वाहिद मिया तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 मो० अली से भवन नं० 93 बदरुल वहीद तक</p>
40	<p>भूरजी माली के मकान से शुरू होकर बाये हाथ सैयदयदो की मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते पर कल्लूमियाँ की हवेली, मिट्टू पहलवान को बाये हाथ लेकर मस्जिद गोल गली के नुक्कड़ तक भवन नं० 175 मुख्तार अली से भवन नं० 274 कमर गालिब तक शाहिद मिया के मकान से शुरू होकर गली गली रेंजर साहब, खारी कुआ जहुर कम्पाउण्डर मो० बैरवान रास्ता कस्साबान, चांद कुरेशी का मकान लेकर हफीज झाईवर तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रजिया बी से भवन नं० 81 हमीदन तक बावड़ी चोराहा दुला खां अण्डे वाले से शुरू होकर मालियों की गली, सम्पूर्ण आबादी लेकर महमूद अहमद वकील के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 आवास सह मीट की दुकान मो० अतीक से भवन नं० 27 सैयद माकुल तक भूरा जमादार की गली सैयद सलीम अहमद के मकान से प्रारम्भ होकर अब्दुल्ला साईकल वाले के मकान से चलकर हीरालाल धोबी के मकान तक भवन नं० 1 से मदरसा से शुरू होकर भवन नं० 21 मो० कुरेशी तक मोहल्ला कसाईयान मे नल के पास वाली गली मे छोटे मियाँ के मकान से शुरू होकर गली एवज खां को लेते हुये बावड़ी अब्दुल रहीमखां तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 आबिद वाहब से भवन नं० 42 मोहम्मद अहमद को लेकर भवन नं० 43 खाली मकान तक</p>
41	<p>नगर परिषद कार्यालय से शुरू होकर दरबार स्कूल बडवाली हवेली, खलीलीया मदरसा कारीगरों की गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुये चाय वाले की दुकान तक भवन नं० 1 नगर परिषद कार्यालय से दरबार सेकण्डरी स्कूल बडवाली हवेली खलीलीया मदरसा के पास से भवन नं० 167 नोहरा तक खलिलिया मदरसा के पास भवन नं० 168 रशीद हुसेन से भवन नं० 203 चाय की दुकान तक खादी ग्रामोधोग समिति के पास से शुरू होकर सरोवर कॉलोनी, खलियानों की बगीची की आबादी लेते हुए रामलाल किराड के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 फारुख मिया से भवन नं० 79 शफीक मिया तक रामलाल किराड के मकान के पीछे की आबादी लेते हुए कब्रिस्तान, मुकेश खटीक, पेट्रोल पम्प गान्धी पार्क से राजस्थान बैंक तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रामोतार तेली से भवन नं० 98 राजस्थान बैंक तक</p>
42	<p>मेहन्दवास दरवाजे के पास खेल विभाग कार्यालय, रसद कार्यालय, कोऑपरेटिव बैंक, को लेते हुये कोऑपरेटिव बैंक के पीछे गली ऐवज खां की आबादी लेकर वापस मुख्य मार्ग पर आते हुये बाये हाथ की समस्त आबादी को लेते हुये रावण की डूँगरी की समस्त गलियों की आबादी लेते हुये मुख्यमार्ग पर कंकाली माता के मंदिर जाने वाले रास्ते के सामने परचुनी की दुकान व शिक्षा संदन को दाई और छोडते हुये गली मे बाई और की समस्त आबादी लेते हुये सरकारी जनानी लेटरिनो को छोडते हुये बायी और समस्त आबादी लेकर रलक के नीचे शिक्षा संदन को लेते हुये गली भोम्याजी के मंदिर को लेते हुये सीमेन्ट की गली से उत्तरते हुये धूलीचंद गूर्जर के मकान से मेहन्दवास दरवाजे की ओर आने वाले रास्ते पर कन्हैयालाल मिस्त्री के मकान की गलियों की समस्त आबादी लेते हुये हैण्डपम्प के पास गुर्जर की होटल के समाने भैया टेलर के मकान से शुरू होकर सोनी अस्पताल को लेते हुये गुर्जरों के चोक मे हैण्डपम्प के पास से पतली गली मे बाई और फूलचंद खटीक भूतपूर्व मेम्बर के मकान को लेकर मुख्य बाजार के कोने से धण्टाघर की ओर मुडते हुये बाये हाथ पर चलते हुये चावडा गैस सर्विस सेन्टर की दुकान लेते हुए मेहन्दवास गेट के बाहर बाबूभाई नाई के मकान मेहन्दवास दरवाजे तक जयपुर रोड पर नाथुकुमार के मकान से शुरू होकर किराणा स्टोर को शामिल करते हुये नाथु कुम्हार के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 छित्र प्रजापत से भवन नं० 47 मॉगी देवी चावला तक</p>

43	<p>बम्बोर दरवाजे के बाहर पूर्व की ओर शिव मन्दिर सब स्टेशन गुर्जर बस्ती देवनारायण जी का मन्दिर लेते जयपुर रोड पर जिला उधोग केन्द्र के पीछे रसीया कॉलोनी की आबादी को दाय हाथ छोड़ते हुए बारूद खाना के पास की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए पहाड़ी पर बसी आबादी को शामिल करते हुए मस्जिद लुहारान को दाये हाथ छोड़ते हुए कोनर से बाये हाथ चलते हुए जनानी लेटरिन को शामिल करते हुए शिक्षा सदन को शामिल करते हुए पूर्व एम.एल.ए. राजेन्द्र गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए गली से नीचे उतरकर कोनर पर मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान को शामिल करते हुए रावण की ढूगरी पर बसी हुई आबादी को शामिल करते हुए बहादुर बाग, पाण्डे जी का बाग शामिल करते हुए बम्बोर दरवाजे तक।</p>
44	<p>काजी जी के मकान से छिपो का मोहल्ला जोशियो की गली की दोनों ओर की आबादी अर्चना विद्या मन्दिर तक भगवानदास भण्डारी के मकान से शुरू होकर अहिरो की गली गुर्जरों की आबादी लेकर पहाड़ी तक बसन्तीलाल कोठारी की दुकान से बोये हाथ चलते हुये लौहारों की मस्जिद गोपीकृष्ण के मकान तक राधाकृष्ण जाजू के मकान से समशाद बेगम काजी जी की गली लुहारों का खुरा दरगाह से नीचे उतरकर पटवों की गली बमोर गेट तक सत्यनारायण माली के मकान से शुरू होकर बलाईयों की गुवाड़ी सुनारो की गली अलहिन्द पब्लिक स्कूल शामिल करते हुये राधेश्याम शर्मा के मकान तक राधेश्याम शर्मा के मकान के पास गली में शुरू होकर मस्जिद, अख्तर का मकान हताई की आबादी लेकर नुकड़ पर लकड़ी की टाल (कसाई की दुकान) तक।</p>
45	<p>रामपाल खाती के मकान से मन्दिर खातियान, मोहल्ला पालुकान व पाटनीयान, सोनियान की पूर्वी व पश्चिमी बम्बो की हवेली से हलीम होटल तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 श्री कृष्ण सक्सेना से भवन नं 0 93 चन्द्र शेखर पारीक तक निवाई दरवाजा मन्दिर तमोलियान मस्जिद शेखान के सामने हबीब मियां के मकान से कोतवाली की ओर बाये हाथ चलते हुये पांच मन्दिर के कौने तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 मन्दिर से भवन नं 0 76 विनोद कुमार जैन को लेकर भवन नं 0 77 मस्जिद तक छोटो बाजार हलीम होटल से शुरू होकर जामा मस्जिद माणक चौक गुलाबचन्द जैन के मकान गोगा तेली के मकान तक व अब्दुल अजीज के मकान से दरवाजा सोनियान वीर जैन मण्डल के कार्यालय तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 चाय की दुकान हलीम होटल से भवन नं 0 113 अनीस मिया तक राजाराम गुर्जर के मकान से ब्रजभवन सिताराम जी का मन्दिर अजमेर वालों की कोठी नन्दराम धोबी से देवनारायण जी के मन्दिर तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 राजाराम गुर्जर से भवन नं 0 72 श्योजीराम गुर्जर के पास भवन नं 0 73 खाली बंद मकान तक</p>
46	<p>मोहल्ला कोलियान में मांगी लाल के मकान से शुरू होकर मन्दिर तमोलियान को बाये हाथ लेते हुए केशव गुर्जर के मकान निवाई दरवाजा तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 ललीत महावर से भवन नं 0 49 फुल जी गुर्जर तक दरियाशाह बावड़ी, मस्जिद, हनुमान जी का मन्दि, कुण्ड, जैन नसिया, आटा चक्की आंगनबाड़ी, ट्रांसफार्मर के पास होकर हरिनाराण गुर्जर, मदनलाल हरीजन, के मकानात की आबादी संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 2 कानाराम के पास मस्जिद से शुरू होकर भवन नं 0 103 ईश्वरी बाई के पास भवन नं 0 104 खाली निर्माणधीन मकान के पास तक हीरा चौक मे किशन लाल गुर्जर के मकान से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी मे हरिजन बस्ती को लेते हुये भंवरलाल गुर्जर के मकान के पास तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 किशन लाल गुर्जर के मकान से भवन नं 0 88 विनोद तक हीरा चौक मे भैरूलाल गुर्जर के मकान से शुरू होकर हरिजन बस्ती हीराचौक लेते हुये मिश्रीलाल गुर्जर के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 देवालाल के मकान से भवन नं 0 65 मो 0 शरीफ के मकान के पास भवन नं 0 66 खाली मकान तक निवाई दरवाजा केशव गुर्जर के मकान के पास से शुरू होकर पहाड़िया के नीचे की समस्त आबादी, नाथूलाल की नसिया हनुमान जी का मन्दिर मिश्री की बगीची तालाब चतुर्भूज मदरलेण्ड पब्लिक स्कूल, मो 0 रेगरान से आबादी संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 3</p>

	मुस्ताक अहमद के पास भवन नं० 1 पशुशेड से शुरू होकर जवाहर लाल पहाड़िया के मकान को लेकर भवन नं० 95 बैठक अग्रवाल जैन समाज तक
47	मो० इनाम के मकान के पास से शुरू होकर मस्जिद देशवालियान गढ़ की सम्पूर्ण आबादी गली गुर्जरान मे होते हुये दामन-दामन रसिया की छतरी के नीचे मन्दिर तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 मन्दिर लक्ष्मीनारायण से भवन नं० 88 रवि तक मुरसलीम खां के मकान से शुरू होकर हथाई के पास की सम्पूर्ण आबादी मो० इनाम के मकान तक। संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 2 मो० ईस्हाक के पास भवन नं० 1 चाय की दुकान से भवन नं० 52 जावेद मिया तक मस्जिद शेखान के सामने मो० सलीम के मकान से शुरू होकर देशवालियान की ओर अ० हामिद के मकान को लेते हुये गली मे मो० मिया का मकान हीरा चौक मे बच्छु गुर्जर के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 सलीम के मकान से से भवन नं० 41 गुलाब देवी तक हीरा चौक मे मस्जिद नाईयान के पास शब्दीर की चक्की से शुरू होकर बाये हाथ शमशेर भाई डाईवरो की गली, खलील दादा व नाईयान के दोनो ओर की गली संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 चक्की शुरू होकर से भवन नं० 68 अजीजा बानो तक गोल चबूतरा के पास मो० सगीर के मकान से शुरू होकर याकूब खां मो० सलीम मो० इस्लाम क्युम खां के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 गुल्लू खां से भवन नं० 60 आवास सह दुकान मो० हनीफ को लेते हुए भवन नं० 64 किराने की दुकान तक
48	देवनारायण की मन्दिर से जयपुर रोड पर फूलचंद गुर्जर जिला उधोग केन्द्र के पिछे का हिस्सा कब्रिस्तान के पास राजाराम तक दूर ससार केन्द्र से शुरू होकर आंगन बाड़ी, पहाड़ी की आबादी शामिल कर गोपालदास तोलाराम के मकान तक गोपालदास तोलाराम के मकान से शुरू होकर सिंधी कॉलोनी की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए बाये हाथ चलकर पुलिस लाईन क्वाटर्स के पास तक, पुलिस लाईन क्वाटर्स से शुरू होकर पुलिस लाईन का समस्त क्षेत्र पुलिस लाईन के आगे गली में बाये हाथ चलते हुए जामा मस्जिद को दाये हाथ छोड़ते हुए बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी पहाड़ी के नीचे बस्ती को शामिल करते हुए असमत अली के मकान तक।
49	पुलिस परेड ग्राउण्ड से शुरू होकर खोजा बावड़ी बाये हाथ की समस्त आबादी लेकर कृषि प्रशिक्षण केन्द्र लेकर पुलिया के पास तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 उचित मूल्य की दुकान से भवन नं० 112 अरूण सिसोदिया तकबस्ती कीरान मे कुए के पास से शुरू होकर प्राईवेट बस स्टेप्प, स्टेडियम कृषि मण्डी, ए.पी.आर.आई. रोडवेज बस स्टेप्प लेकर इन्द्रा सर्किल के पास कोने तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रा०बा०उ०प्रा०वि० छावनी से भवन नं० 144 बंजरग तक पुलिस परेड ग्राउण्ड से शुरू होकर खोजा बावड़ी बाये हाथ की समस्त आबादी लेकर कृषि प्रशिक्षण केन्द्र लेकर पुलिया के पास तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 उचित मूल्य की दुकान से भवन नं० 112 अरूण सिसोदिया तक बस्ती कीरान मे कुए के पास से शुरू होकर प्राईवेट बस स्टेप्प, स्टेडियम कृषि मण्डी, ए.पी.आर.आई. रोडवेज बस स्टेप्प लेकर इन्द्रा सर्किल के पास कोने तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 रा०बा०उ०प्रा०वि० छावनी से भवन नं० 144 बंजरग तक मैन रोड भंवरलाल के मकान से शुरू होकर पी.डब्लू.डी ऑफिस होते हुए नायकान मोहल्ले मे मूलचंद के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 भंवरलाल प्रजापत से भवन नं० 208 मूलचंद गढ़रिया तक ब्लाक संख्या 178 मे 174 के आगे 175 से शुरू होकर 331 तक भवन नं० 175 दलवीर सिंह से शुरू होकर भवन नं० 331 मोहनलाल बैरवा तक नये बस स्टेप्प के सामने से शुरू होकर कमला टेन्ट हाउस के पास की आबादी को शामिल करते हुये बाई पास एन.एच. 12 बमोर रोड चोराहे तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 दुकान पत्थर मार्बल से भवन नं० 174 गुड़डी कंवर तक
50	खंगारो की पुलिया से कन्हैया लाल के मकान से बाये हाथ नई बस्ती को लेकर हरनाथ के मकान को लेते हुये रामपाल खगार के मकान को शामिल करते हुये बाये हाथ चलते हुए दिवानजी के कुए के पास छोटे के मकान से बाये हाथ चलते हुए नेहरू कॉलेज को दाये

	<p>हाथ छोड़ते हुए कृषि मण्डी रोड को बाये हाथ छोड़ते हुए राम-कृश्ण कॉलोनी की सम्पूर्ण आबादी एवं अभिका कॉलोनी ओमप्रकाश गुर्जर स्टेडियम रोड राजाराम से सीता वाटिका कंकाली माता मन्दिर, के पीछे की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए कृषि प्रशिक्षण केन्द्र के बाये हाथ की आबादी बफ फैक्टी, ऐन्जल टाकीज नारायण टाकीज को शामिल करते हुए कृषि प्रशिक्षण केन्द्र को दाये हाथ छोड़ते हुए घण्टाघर की तरफ पाण्डे जी के बाग के सामने जानकीबाई धर्मशाला को शामिल करते हुए, गोशाला के पास की आबादी शामिल करते हुए खंगारो की पुलिया तक।</p>
51	गेंदी की चौकी के पास अल्लादिया की दुकान से शुरू होकर मंदिर कोलियान की आबादी नाथूलाल महावर के मकान तक व सादुल्ला खां के मकान से शुरू होकर रामदेव के मकान तक गली अंसारियान में नूर मोहम्मद के मकान से शुरू होकर पौखर जी हलावाई के मकान को लेते हुये गली कसाईयान बाये हाथ की आबादी लेते हुये ईस्माईल मिया के मकान तक गली कसाईयान में करीमुल्ला के मकान से शुरू होकर बस्ती कोलियान व पतली गली को लेते हुए गेंदी की चौकी से पुलिया की और जोने वाले रास्ते पर फूलचन्द कम्पाउन्डर के मकान से गली के कोने तक रामपाल खंगार के मकान से भैया नाज वाले के मकान लेकर वियज कुमार, ताराचन्द के मकान का लेकर पूरण के मकान तक।
52	मन्दिर राधास्वामी के पास मे शुरू होकर स्टेडियम के पास बाये हाथ की आबादी पुलिस थाना हरिजन बस्ती तक पुलिया के पास कच्चे नाले से सईदुल्ला के मकान को लेकर सिन्धी की दूकान को शामिल कर बाबू कसाई के मकान तक व हबीब के मकान से इन्द्रमल तक व ताराचन्द के मकान से पप्पू के मकान तक हरिजन बस्ती मे मोती लाल के मकान से बाये हाथ हरिजन बस्ती को शामिल कर मन्दिर के पास तक सआदत गंज आरा मशीन के पास से शुरू होकर कृषि मण्डी की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए चिमनी के पास तक सआदत गंज सडक पर नल के पास कमरुदीन के मकान के पास से शुरू होकर बाये हाथ चलते हुये पूर्व उपमुख्यमंत्री बनवारीलाल जी के मकान को शामिल करते हुए कृषि मण्डी रोड स्टेडियम की तरफ चलते हुए बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए नेहरू कॉलेज तक।
53	रीछडी के चोराहे से शुरू होकर हजारी पाडा, रामनिवास हरीराम के मकान को लेकर अब्दुल हकीम के मकान तक रीछडी के चोराहे पर तेली के मकान से शुरू होकर हजारी पाडे की आबादी शामिल करते हुये रामनिवास मिस्त्री के मकान से गली मे मुडकर बाये हाथ चलकर हरीराम बैरवा के मकान को लेकर अब्दुल हकीम के मकान तक। खारी कुए के पास अच्छु खां के मकान से शुरू होकर बाये हाथ चलते हुये सडक धन्नातलाई पर मुडकर बाबूलाल तक व सडक पार कर छोटूलाल मकान से शुरू होकर मो० शरीफ के मकान तक चौकी कुम्हारान की सडक पर जगन्नाथ बैरवा के मकान से शुरू होकर ताराचंद ठेकेदार के मकान को लेकर चौकी कुम्हारान के पास मीठे कुए के पास होकर वापस जगन्नाथ के मकान तक एवं धन्नातलाई के कोने से शुरू होकर युनुस जमादार की बाई ओर की आबादी लेते हुये बलाईयान की बाई ओर की आबादी लेते हुये मंदिर व स्कूल लेकर हबीबनुर के मकान तक। मोहम्मद खां के पुल पर कुऐ के पास परचूनी दुकान व पश्चिमी आबादी में शंकर लाल बैरवा (डॉ० बृजमोहन) का मकान लेकर रिछडी वाले चौराहे के पास मुडकर मोहम्मद खां के पुल तक।
54	ए.पी.आर.आई के सामने डॉ० शान्ति बंशीवाल के मकान से शुरू होकर बाई तरफ चलते हुये भवन संख्या 185 तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं० 1 आवास सह विलनिक डॉ रतनलाल बंशीवाल से सुरेन्द्र कुमार बैरवा के पास भवन नं० 185 खाली तक हाउसिंग बोर्ड मे ब्लाक नं. 179 मे आगे भवन संख्या 186 से 371 तक भवन नं० 186 आवास सह दुकान महेन्द्र कुमार जैन से भवन नं० 371 राजेन्द्र प्रसाद जांगिड तक भवन संख्या 371 से 518 तक राजेन्द्र प्रसाद जांगिड के आगे से शुरू होकर कृषि मण्डी धर्म कांटे से शुरू होकर अम्बेडकर कॉलोनी मे भवन संख्या 201 तक भवन नं० 1 जोधराज सोलकी के पास से शरू होकर से भवन नं० 201 लादू के मकान तक ब्लॉक संख्या 180 के जनगणना भवन नं० 201 से आगे 202 सुरजमल बैरवा के मकान के पास

	खाली मकान से शुरू होकर रामगोपाल बैरवा के मकान के पास भवन नं 402 तक कृषि मण्डी पुलिया से पशु चिकित्सालय होते हुये गैस गोदाम के पिछे के सम्पूर्ण क्षेत्र संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 रमेशचंद बैरवा से भवन नं 131 रमेशचंद बंशीवाल तक प्यारे मिया के मकान के आग कच्चे रास्ते मकानात को लेकर नाले के पास तक प्यारे मिया के मकान के आग कच्चे रास्ते मकानात को लेकर नाले के पास तक भवन नं 1 प्यारे मिया से भवन नं 94 जहीर तक भवन नं 95 संजू से भवन नं 186 मो 0 यासीन तक
55	भारत गैस गोदाम के सामने आने वाली आबादी को शामिल करते हुये हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तक भवन नं 1 खाली से शिव मंदिर के लेकर से भवन नं 181 बंशी बैरागी तक भारत गैस गोदाम के सामने आने वाली आबादी को शामिल करते हुये हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तक भवन नं 182 गोपाल गोतम से भवन 205 जितेन्द्र तक ब्लाक नं 177 के जनगणना भवन संख्या 205 के आगे 206 से शुरू होकर 404 तक संक्षिप्त सूची के भवन नं 206 राधेश्याम साहू से शुरू होकर भवन नं 404 शिवजीलाल तक
56	बाईपास पर बमोर जाने वाली सड़क पर अन्नपूर्णा डूंगरी के नीचे की आबादी लेते हुये बमोर रोड के बाये हाथ की आबादी लेते हुये रामदेव जी के मन्दिर के सामने वाली दुकान तक सोरण रोड पर से बमोर जाने वाली रोड के बाये हाथ की आबादी लेते हुये भारत गैस गोदाम के पास की आबादी तक बमोर रोड पर अन्नपूर्णा मन्दिर जाने वाले कच्चे रास्ते पर बसी हुई पहाड़ी की आबादी, तलाई की आबादी बाबू तेली की दुकान व मकान के पास चांदमल कुमावत के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 आवास सह बाबूतेली होटल से भवन नं 131 अशोक को लेकर भवन नं 0 133 दुकान तक सोरण जाने वाले रोड से धोलाखेड़ा जाने वाले कच्चे रास्ते पर बायी साईड लक्ष्मी नारायण से शिवजी की छत्री राठोप्राठवि धोलाखेड़ा के पास की सम्पूर्ण आबादी गोपीलाल नायक तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 गोविन्द प्रताप सिंह से भवन नं 47 गोपीलाल नायक तक ।
57	बाईपास पर बमोर जाने वाली सड़क पर अन्नपूर्णा डूंगरी के नीचे की आबादी लेते हुये बमोर रोड के बाये हाथ की आबादी लेते हुये रामदेव जी के मन्दिर के सामने वाली दुकान तक भवन नं 1 गुलशन बानो से भवन नं 0 147 बाबूलाल तक तक ब्लांक नं 0 203 के भवन संख्या 153 से आगे 154 सूरजमल नामा से भवन नं 0 287 मुस्ताक अहमद तक कोनर की मिस्त्री की दुकान से शुरू होकर बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुये ओधोगिक क्षेत्र सदन थाना, ताज भारती होटल नदी तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 दुकान वायरिंग से भवन नं 0 153 राधाकिशन मोग्या तक छावनी जयपुर रोड पर कजोड़मल सरारफ के कुए से शुरू होकर बाये हाथ की केप्टन कॉलोनी आबिद मियाँ दुधीया बालाजी एन.एच. 12 तिराहे के कॉर्नर की दुकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 4 तुलसा देवी के पास खाली मकान भवन नं 1 से भवन नं 0 113 बालाजी के मंदिर तक
58	नाले नाले वापस आकर सआदत अली के मकान से शुरू होकर वहिद अली, सुखदेव, नानगराम के मकान को लेते हुये मैन रोड पर सलीम मास्टर की दुकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 ताहीर अली के मकान से भवन नं 0 63 सादिक मिया के मकान को लेकर भवन नं 0 64 खाली दुकान तक मूलचंद के मकान के पास खुर्शीद के मकान से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी लेते हुये रामनारायण रेगर के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0 1 खुर्शीद से भवन नं 0 64 रामनारायण रेगर तक मोहल्ला छावनी डामर रोड के पास बने मिया की दुकान से बैरवाओं के मकानात लेते हुये सलीम भाई केवी वाले के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 दुकान पेन्टर से भवन नं 0 155 मो 0 सलीम तक कल्याण रेगर से शुरू होकर बाईपास गंगाधर यादव का मकान लेकर गणपत रेगर की दुकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 रामलाल रेगर से भवन नं 0 100 प्रहलाद मीणा को लेकर भवन नं 0 102 नाई की दुकान तक मराठा कॉलोनी मे हरीश चौधरी के मकान से सम्पूर्ण आबादी, बजाज शोरूम से बालाजी तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 0

	1 हरिश चोधरी से भवन नं 142 सीमेन्ट की जाली एवं टाईलों की दुकान पर तक
59	मस्जिद छावनी के पिछे हसन अली के मकान से शुरू होकर गुलजार मियां मो 0 मिया, शब्बीर अहमद के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 हसन अली से भवन नं 77 शब्बीर अहमद तक शब्बीर अहमद के मकान से सामने उमर मिया के मकान से शुरू होकर युनूस मिया छावनी मस्जिद, बालाजी सेवा केन्द्र अस्तल रोड जाने वाले रास्ते को शामिल करते हुये बसी हुई आबादी संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 आवास सह दुकान चक्की मो 0 नूर से भवन नं 57 जाहिद मिया तक जनगणना मकान 175 से शुरू होकर कजोड़मल सर्राफ के कुए की समस्त आबादी भवन नं 175 राजकमल से शुरू होकर भवन नं 247 रामप्रसाद तक जनगणना मकान से शुरू होकर कजोड़मल सर्राफ के कुए की समस्त आबादी भवन नं 248 कल्याण मल से भवन नं 359 रामसहाय तक
60	गलतान दास की बगीचे से शुरू होकर अस्थल रोड पर बबलू गुर्जर जनगणना भवन 174 तक भवन नं 2 बबलू गुर्जर के पास भवन नं 1 मन्दिर से शुरू होकर भवन नं 115 रामकिशोर महावर तक गलतान दास की बगीचे से शुरू होकर अस्थल रोड पर बबलू गुर्जर जनगणना भवन 174 तक भवन नं 116 लल्लू महावर से भवन नं 174 मनोहर दास बैरागी तक। पंचायत भवन के सामने गली में सरवराबाद की आबादी, पानी की टंकी, तेजाजी का मन्दिर हेण्डपम्प को शामिल कर माधु हलवाई के मकान तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 रामदेव सैनी से भवन नं 43 काना सैनी तक संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 44 ग्यारसीलाल सैनी से भवन नं 97 रामस्वरूप सैनी तक सरवराबाद से सईदाबाद जाने वाले रास्ते पर नारायण जी भाटीया के मकान से शुरू होकर ट्रान्सफार्मर, पानी की टंकी रा०प्र०वि० सईदाबाद व ग्राम की पूरी आबादी संक्षिप्त मकान सूची के भवन नं 1 रामलाल सैनी से भवन नं 152 छीतरलाल सैनी तक

आयुक्त
नगर परिषद टॉक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।